

### RACL Geartech Ltd.

Corporate Office

B-9, Sector-3, Noida, Uttar Pradesh-201301, INDIA Phone; +91-120-4588500 Fax; +91-120-4588513 Web; www.raclgeartech.com E-mail; info@raclgeartech.com

2<sup>nd</sup> September, 2021

The Manager - Listing BSE Limited 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

**Scrip Code: 520073** 

<u>Subject: Newspaper Publication of the completion of dispatch of Notice of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith, the Newspaper Advertisement published in Mint (English) and Jansatta (Hindi) for the completion of dispatch of Notice of 38th Annual General Meeting, Remote E-voting and Book Closure.

You are requested to take the aforesaid information on record and oblige.

Thanking You,

FOR RACL GEAR FEGIL LIMITED

SHAGUN BANAN SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

ICSI MEM. NO.: A45982



15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019, INDIA Phone: +91-11-66155129

CIN: L34300DL1983PLC016136 D-U-N-S Number: 65-013-7086



RESERVE BANK OF INDIA

4.26% GS 2023

2 6.10% GS 2031

3 6.76% GS 2061

RBI website - (www.rbi.org.in).

Securities for ₹26,000 crore on September 03, 2021

The Government of India (GoI) has announced the sale (re-issue) of three dated

GoI will have the option to retain additional subscription up to ₹6,000 crore against

The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification

(called 'Specific Notification'). The stocks will be sold through Reserve Bank of

India, Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400001, as per the terms and conditions specified in the General Notification F.No.4(2)–W&M/2018, dated March 27, 2018

The auction will be conducted using uniform price method for 4.26% GS 2023.

6.10% GS 2031 and multiple price method for 6.76% GS 2061. The auction wil

be conducted by RBI, Mumbai Office, Fort, Mumbai on September 03, 2021

(Friday). The result will be announced on the same day and payment by

For further details, please see RBI press release dated August 27, 2021 on the

Attention Retail Investors (\*PFs, Trusts, RRBs, Cooperative Banks, NBFCs, Corporates, HUFs and Individuals)

Retail investors can participate in the auctions for the amounts earmarked for

them on a non-competitive basis through a bank or a primary dealer. For more

information, detailed list and telephone numbers of primary dealers/bank

branches and application forms please visit RBI website (www.rbi.org.in) or

Government Stock offers safety liquidity and attractive returns for long duration

'Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money."

ccessful bidders will have to be made on September 06, 2021 (Monday).

9,000

450



## Kozhikode plane crash far from over

# Ayear on, probe on Tata group's market cap surpasses \$300 bn

Rhik Kundu rhik.k@livemint.com **NEW DELHI** 

ver a year after the crash of a Boeing 737 aircraft operated by Air India Express at Kozhikode airport, which killed 20 people, including two pilots, a probe on the causes of the incident is yet to be completed.

An inquiry team set up by the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) a week after the 7 August 2020 crash was supposed to submit the initial findings in five months.

However, the five-member committee headed by Capt. SS Chahar, a former designated examiner on Boeing 737NG, to investigate the causes of the crash, is vet to submit its report.

Other members of the committee are Ved Prakash (operations expert), Mukul Bhardwaj (senior aircraft maintenance engineer for Boeing 737), Y.S. Dahiya (aviation medicine expert) and Jasbir Singh Larhga (deputy director of

The delay has been officially attributed to the ongoing coronavirus pandemic.

The Air India Express flight (IX 1344) from Dubai carrying 191 people skidded off a wet runway while landing at Kozhikode airport and crashed into a ravine, breaking into

The crash happened in incessant rains and saw the aircraft fall over 35 feet down the slope of the table top airport.

V.K. Singh, minister of state (civil aviation), on 11 August this year told Parliament that the final report on the probe is likely to be completed by the end of the month.

According to media reports,



The delay in submitting a probe report on the cause of the incident has been officially attributed to the ongoing coronavirus pandemic REUTERS

none of the next of kin of the deceased have accepted the offered compensation. Families of deceased and injured passengers have instead engaged with law firms to deal with reinsurers.

Civil aviation minister Jyotiraditva Scindia had in July informed Abdussamad Samadani, a member of Parliament from Kerala that a draft report on the air crash is under consultation with the accredited representative of the National Transportation Safety Board (NTSB) in accordance with Rule 14 of Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017.

"However, the consultation process has been severely hampered due to unprecedented impact of covid-19. The final report is likely to be made public in August 2021," Scindia said in a letter.

AAIB director general Aurobindo Handa didn't respond to emailed queries. Handa however messaged that he's on leave due to urgent

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY

**DISTRIBUTION COMPANY LIMITED** 

Last date of Submission

27.09.2021

(up to 14:00 hrs.)

ICA-T10828(4)/2021

Notice Inviting e-Tender for Empanelment of Vendors

The Chief Engineer, Procurement & Contracts Department, WBSEDCL, Vidyut Bhavan (4th Floor), Bidhannagar, Block-DJ, Sector-II, Kolkata-91 invites e-tender

from original manufacturers for **further empanelment of Vendors** as stipulated in the NIT in addition to our existing list of vendors for manufacture, testing, supply and delivery

Tenders are to be submitted online through https://wbtenders.gov.in. Further details of

the Tender Notice may be had from www.wbsedcl.in and the above-mentioned Office

Tender Notice No. & Description of Items

Tender Notice No. P-20/2021-22/PC-II/DTR

3 Phase, 50 Hz, Dyn11, ONAN, Al wound

11/0.433 KV, O/D type

**IRCON INTERNATIONAL LIMITED** 

e-Procurement Notice
e-Tender No.: IRCON/NZ/CVL/OBNS1/FD/2021 dated: 01.09.2021
9-Tenders in two packet system are invited from bidders meeting qualifying requirements for the work of "Development of External Facade of IRCON's Noida Sector 1 Office Building".

For further details, visit website https://www.etenders.gov.in and https://www.eprocure.gov.in. Corrigendum, if any, would be hosted only on the website.

General Manager/Northern Region
3rd Floor, B-40A, Sec 1, Noida-201301;
e-mail: neeraj.verma@ircon.org; Tel: 011-24121632; +91-9560595073

Wash Your Hand, Wear Mask & Maintain Social Distance

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-IV

SEWAGE TREATMENT PLANT KONDLI, KONDLI, DELHI-110096

Email: <u>eesdw4.djb@nic.in</u> PRESS Tender Notice - N.I.T. No. 06 (2021-22)/EE (SDW)-IV

Estimated cost/Earnest Money

Rs. 4,70,000.00 EMD is exempted as

per present Govt. norms. However, bidder has to fill Annexure-I in lieu of

the EMD exemption Tender Fee

Date of Uploading on

Tender ID

31.08.2021/

2021\_DJB\_207804\_1

r details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.ir

Last Date & Time of e-Bid Submission : 27.09.2021 at 15.00 Hrs. (IST)

₹117.00 Lakhs

i) 25 KVA Distribution Transformer

ii) 63 KVA Distribution Transformer

iii) 100 KVA Distribution Transforme

iv) 160 KVA Distribution Transformer

(Ph. No. 033-2319-7731/033-2334-5820).

Estimated cost of the work

Description of Work

peration of 45 MGD STP for

Under EE (SDW)-IV

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

It added a market value of \$84.75 bn this year, on back of share price gains

Ravindra Sonavane ravindra.s@livemint.com

he market capitalization of Tata group has crossed \$300 billion as shares of 27 of its 28 listed companies soared during the year, stock exchange data showed. India's largest conglomerate added a market value of \$84.75 billion since the beginning of the year, on the back of share price gains ranging from 15% to 375% during the year.

Tata Consultancy Services was the top contributor to the gain, with its share of the group market cap at 52%, followed by Tata Steel Ltd (16.22%), Tata Motors Ltd (6.75%), Titan Co. Ltd (5.07%) and Tata Consumer

Six group companies have gained over 100% during the year, while nine climbed 50-90%. Twelve firms saw their share price rise 15-45%. Rallis India, the only stock in the group is trading nearly 1% lower, this

Analysts said Tata group stocks have surged this year as all its key group companies have survived the pandemic without any significant impact. Group companies are also maintaining debt within acceptable levels, assuaging investors

The global luxury car recovery supported Jaguar and Land

Stock prices of six

Tata group

companies have

gained over 100%

during the year,

while nine

climbed 50-90%

Rover, and consequently, its owner Tata Motors. Similarly,  $the\,rebound\,in\,steel\,demand$ and commodity cost inflation supported Tata Steel. Recovery in domestic consumption, improved operating leverage and various cost control measures supported improvement in profitability in its various businesses.

"Thus, steady earnings growth enhanced investors' confidence in the group and re-rating for group companies continued resulting in a strong uptick in stock prices. We expect this positive trac-



#### **Surging stocks**

Tata Consultancy Services was the top contributor to the share price gains this year. Market cap (in ₹ cr)

	31 Dec 2020	1 Sep 2021	% change
TCS	1,077,009	1,373,846	27.56
Titan Company	139,160	172,164	23.72
Tata Steel	74,064	169,786	129.24
Tata Motors	60,568	105,101	73.53
Tata Consumer	54,339	79,935	47.10
Tata Power Co.	24,173	42,626	76.34
			Source: Capitaline

tion would continue with ramp up in vaccination drive globally and better profitability for the group in FY23", said Mitul Shah, head of research at Reliance Securities.

Investors continued to buy the group's stocks as Tata companies see strong tail-

winds in many sectors such as metals where the group is deleveraging its balance sheet every quarter taking full advantage of the upcycle. The group has also made a clear vision to be debt-free in the automobile segment by

"The focus has been on improving operational met-

**RACL Geartech Limited** 

Email: info@raclgeartech.com | Website : www.raclgeartech.com

CIN: L34300DL1983PLC016136 NOTICE OF 38 $^{ exttt{TH}}$  ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of RACL Geartech Limited ("Company") will be held on Friday, 24th September, 2021 at 03:00 p.m. through Video

Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM") in accordance with MCA Circulars Nos

14/2020, 17/2020, 20/ 2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13

The Notice of the AGM along with the Annual Reports for the Financial Year ended 31st March, 2021 have been sent by electronic mode to all the Members whose E-mail IDs are registered with the

Company/RTA/Depository Participant. The mailing of the Notice of the AGM has been completed o

Wednesday, 1st September, 2021. The Notice and Annual Report for the year is available on the Company'

In case you have not registered your E-mail ID with the Company/RTA/Depository, please follow below

instructions to register your E-mail ID for obtaining Annual Report for F.Y. 2020-21 and login details for e

Physical Holding: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the Company, MAS Services

Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the

share certificate (Front and Back), Self attested scanned copy of PAN Card & Aadhar Card for registering E

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2

Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) alongwith letter mentioning Folio no. (If not

**Demat Holding:** Please contact your Depository Participant (DP) and register your E-mail address as pe

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made

thereunder read with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility

to its Members, holding Shares in physical or dematerialised form as on the cut-off date i.e. Friday, 17th

September, 2021 enabling them to cast their votes electronically on the businesses as set forth in th

Notice of the AGM through remote e-voting system of NSDL through their portal www.evoting.nsdl.com

The procedure to cast vote using remote e-voting system has been described in the Notice of the AGM

a) The remote e-voting period shall remain open from Tuesday, 21<sup>st</sup> September, 2021 at 09:00 A.M. IST and ends on Thursday, 23<sup>rd</sup> September, 2021 at 05:00 P.M. IST.

b) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after

c) The remote e-voting shall be disabled by NSDL for voting beyond Thursday, 23<sup>rd</sup> September, 2021

dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, 17

September, 2021, may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.ii

(05:00 p.m.) and Members will not be allowed to vote beyond the aforesaid time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. d) The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who

have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again The voting rights of members shall be in proportion to the equity

maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of

Ms. Ridhima Aggarwal, Practicing Company Secretary (Membership No. A35391 & CP No. 16584), has

Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Shagun Bajpai, Compan

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with Regulation

42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations 2015, Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of th

Company shall remain closed from Saturday, 18th September, 2021 to Friday, 24th September, 2021

For RACL Geartech Limited

Company Secretary & Compliance Office

moneycontrol

Shagun Bajpai

Pradesh, Phone: 0120-4588500, Fax: 0120-4588513, Email: <a href="mailto:investor@raclgeartech.com">investor@raclgeartech.com</a>.

Secretary and Compliance Officer, RACL Geartech Limited, B-9, Sector-3, Noida-201301, Uttar

e) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner

the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP

2021, respectively to transact the businesses as set forth in the Notice convening the AGM.

Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019 (India) Tel No.: 011-66155129 | Fax No.: 0120-4588513

rics and is to increase market share. The group's focus has been sharper and delivering the outcome has been rewarded by the markets. We stay overall positive on the group companies and would like to buy them at any good dips as they will be good

website i.e. www.raclgeartech.com

The Members may please note that:

or info@masserv.com.

**Book Closure** 

Date: 2<sup>nd</sup> September, 2021

shares held by them as on the cut-off date.

remote e-voting or e-voting at the AGM.

(both days inclusive) for the purpose of AGM.

been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

registered already).

long term investments", said Jitesh Ranawat, head of institutional sales at Marwadi Shares and Finance Ltd.

The group's holding company Tata Sons invested ₹2,600 crore in Tata Power Ltd last year, increasing its stake from 35.27% to 45.21%. The group also increased its shareholding in its unlisted airline business Air-Asia India from 51% to 83.67% by purchasing a stake from its partner AirAsia Berhad.

The group has also entered into new lines of business such as Tata Electronics, a precision engineering and manufacturing operation; Tata Medical and Diagnostics, which makes medical devices; and Tata Digital, a consumer-centric digital

Tata has also made big investments in the digital economy with the acquisition of BigBasket and IMG and a \$75 million investment in CureFit.

Swaraj Singh Dhanjal contributed to this

#### **INTRASOFT TECHNOLOGIES LIMITED**

CIN: L24133MH1996PLC197857 **Regd. Office:** 502A, Prathamesh, Raghuvanshi Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W),Mumbai-400013 **Tel**: 91-22-2491-2123, Fax: 91-22-2490-3123 Website: www.itlindia.com E-mail: intrasoft@itlindia.com

compliance with MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the 26th Annual General Meeting of the Members of the Company is going to be held through VC/OAVM mode on Tuesday, September 28, 2021 at 3.00 P.M withou physical presence of the members at a common venue.

n view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs "MCA") has vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020, Circular No. 17 dated April 13, 2020 and Circular No. 02 dated January 13, 2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM mode without the physical presence

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financia year 2020-21 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circulars issued by SEBI dated May 12, 2020 and January

Members are requested to keep their email id updated in their demat account/folio, as Members are requested to keep their email id updated in their demat accounty folio, as the case may be. Members desirous of obtaining any information concerning the accounts and operations are requested to address their queries at intrasoft@itlindia.com at least 7 working days prior to the AGM, to enable the Company to suitably reply to such queries at the AGM/by email.

Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report fo Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report to the financial year 2020-21 will also be available on the Company's website www.itlindia.com and websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting is provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to the SEBI Circular- SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated Decembe 09, 2020 on "e-Voting facility provided by listed companies", e-Voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single log-in credential, through their demat accounts/ websites of Depositories / DPs in order to

oting process The remote e-voting period commences from 9.00 a.m. on Saturday, September 25, 2021 up to 5.00 p.m. Monday September 27, 2021. During this period members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. on September 21, 2021, may cast their vote by remote e-voting. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice and hold shares on the cut-off date of September 21, 2021, should follow the instructions given in the Notice to obtain his/her login id and password for e-voting. Members who have not voted through Remote e-voting facility will be permitted to vote through e-voting at the AGM. The Members who have already casted their vote through Remote e-voting may attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote during the AGM. Detailed instructions for availing the acility of e-Voting for Individual Shareholders and as well as Institutiona

Shareholders is provided in the Notice of the Annual General Meeting. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company for the purpose o Annual General Meeting will remain closed from Wednesday September 22, 2021 to Tuesday, September 28, 2021 (both days inclusive) and for the purpose of payment of dividend, if declared at the Meeting. The Cut-off date for the purpose of payment of lividend to the members holding shares in demat form would be September 21, 2021. Pursuant to Finance Act, 2020, the dividends from Indian companies would be liable to tax in the hands of the shareholders. Furthermore, the Indian companies would be able to withhold taxes at the prescribed rates. The Shareholders are requested to refe inance Act, 2020 including Amendments thereto along with the Income-tax Act, 1961 'IT Act') for different withholding tax rates applicable (including applicable surcharge and cess) to each category of shareholders (i.e. payees) such as individuals, trusts residents, non-residents, Foreign Portfolio Investors, etc. The TDS provisions are also provided in the details in the Notice of the 26th Annual General Meeting

. The Resident Tax holders having Permanent Account Number (PAN) are requested to submit Form 15G/15H declaration to avail the benefit of non-deduction of Tax at source, or applicability of lower tax rate/NIL tax for the purpose of Dividend. In case PAN is not registered with Link Intime India Pvt Limited, the Shareholders is subject to the higher rate of taxes. Shareholders are requested to submit above declarations, egister their PAN with the link as provided by our RTA.

Non-Residential Shareholders (FPIs- Individual/ Company/Trust/BOI/AOP) can avail beneficial rates under the treaty between India and their country of Residence, subject to providing necessary documents, i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration and / or Tax Registration Certificates (TRC) also detailed in the Notice of the Annual General Meeting. Alternative Investment Funds (AIFs) and Mutual Funds are required to submit their SEBI Registration Certificates -

Registration of Tax Exemption related documents/15G/15H/ TRC and other Tax

For All Shareholders: The aforementioned documents (duly completed and signed) are required to be uploaded on the URL

https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html. On this page

the user shall be prompted to select / share the following information to register their

Folio / DP-Client ID

Select the company (Dropdown) PAN

Place: Mumhai

Date: September 02, 2021

 Financial year (Dropdown) • Document attachment - 1 (PAN)

Form selection

Document attachment- 2 ( Forms) Registration of email ID, Bank Account details:

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

Members who have not yet registered their e-mail addresses for receiving documents in electronic form are requested to register their e-mail addresses; and such members can obtain login credentials for e-voting by sending details as required by RTA or as n case the shareholder has not registered his/her/their email address with the

Company/its RTA/Depositories and or not updated the Bank Account mandate for eceipt of dividend, the following instructions to be followed:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration-fill in the details, upload the required documents and submit. (ii) In the case of Shares held in Demat mode:

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP. n case members have any queries regarding log-in to VC meeting, E-voting or

Documents/Email Registrations they may send an email to <u>instameet@linkintime.co.in</u>

ntrasoft@itlindia.com or contact Mr. Rajeev Ranjan at 022-49186175.

Company Secretary & Compliance officer

For IntraSoft Technologies Limited Pranyesh Trinathi

**Economic Times** India's #1 Business News Site on Mobile Source: Comscore Mobile Metrix, News/Information - Business/ Finance News, Total Unique Visitors, June 2021 | India

Tender Fee

Date of

04.10.2021 at

(R.K. Kaushik

**Executive Engineer (SDW)-IV** 

#### आईएफएल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशान्त विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 सीआईएन : L67100DL2009PLC186958, दूरभाष नं. : 011-47096097

वेबसाइट : www.iflenterprises.com ई-मेल : iflenterprises@rediffmail.com 12वीं वार्षिक आम बैठक, मतदान प्रक्रिया की सुचना तथा बुक क्लोजर की सुचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम आयोजित करने हेतु वितरित की जा रही एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन हेतु आईएफएल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड के सदस्यों की 12वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशान्त विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में 9.30 बजे पुर्वा. में आयोजित की जायेगी। कम्पनी ने वित्त वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेज दी है जिनके ई-मेल पते 20 अगस्त, 2021 तक कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.iflenterprises.com पर उपलब्ध है

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (''नियम'') के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा समय-समय पर चालु उसके किसी विधिक संशोधन अथवा प्रवर्तन, एमसीए द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुपालन में सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा प्रावधानित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुए एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर अपना मतदान करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। सदस्यों के मतदान का अधिकार बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 (''कट-ऑफ तिथि'') तक कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को (10.00 बजे प्रातः) प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे सायं) समाप्त होगी। इस अविध के दौरान सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल सीडीसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम अथवा पोलिंग पेपर द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करायी जायेगी और जिन सदस्यों ने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग

वे पनः मतदान के पात्र नहीं होंगे। एजीएम में लेन-देन किये जाने वाले प्रकार्य की मदों से सम्बन्धित दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस में कार्य घण्टों के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर निरीक्षण हेत खले हैं।

द्वारा एजीएम से पूर्व अपना मतदान कर लिया है वे एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्त

सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार कम्पनी की 12वीं एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2021 तक जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी के विवरण में दर्ज है वह एजीएम आयोजित होने की सूचना कम्पनी की वेबसाइट iflenterprises@rediffmail.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर देख सकता है। ऐसे सदस्य एजीएम की कथित सुचना में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करके ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। सदस्यों को यह भी सुचित किया जाता है कि ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ या समस्या के लिए आप www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (''एफएक्यु'') तथा ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evotingindia@cdslindia.com पर ई-मेल करें या श्री नितिन कुन्दर (022-23058738) अथवा महबूब लखानी (022-23058543) अथवा श्री रवि दलवी (022-23058542) अथवा 1800225533 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबन्धक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई-400013 को सम्बोधित करें अथवा helpdesk.evotingindia@cdslindia.com पर ई-मेल करें या 1800225533/022-23058542/43 पर कॉल करें।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृत आइएफएल एन्टरप्राइजज ।लामटः

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 31 अगस्त, 2021

कम्पनी सचिव एम. नं.: 34263

#### बाएलबा लिमटड (CIN: L67120DL1981PLC354823)

पंजी. कार्यालयः एच.नं. 4760-61/ 23, 3रा तल, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 वेबसाईटः www.blblimited.com, ई-मेलः infoblb@blblimited.com फोन: 011-49325600

40वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों और साधारण परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 ('एमसीए परिपत्र' तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 तथा परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में मैसर्स बीएलबी लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 40वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 को 12.00 बजे दोपहर (भा.मा.स.) में केवल विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आमंत्रित की जाएगी जिसमें 40वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

40वीं एजीएम का स्थान कम्पनी की पंजीकृत कार्यालय माना जायेगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी। चूंकि यह एजीएम एमसीए तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थित समाप्त कर दी गयी है। तदनुसार सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति इस एजीएम में उपलब्ध नहीं

40वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 के लिये कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी है जिनके ईमेल पते कम्पनी/ रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट ( आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियों को भेजने की आवश्यकता को एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्युलर द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

40वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने का कार्य 31 अगस्त, 2021 को पूरा किया जा चुका है। सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की ई-कॉपी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.blblimited.com पर उपलब्ध है तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंजों अर्थाट्र नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को वेबसाईटों क्रमशः www.nseindia.com तथा www.bseindia.com के सम्बंधित खंडों में भी देखी जा सकती है। एजीएम की सूचना नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाईट

www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया इसे अपने कम्पनी/आरटीए या

डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत/अपडेट करा लें। रिमोट ई-वोटिंग

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 क विनियमन 44 तथा इंस्टीच्युट ऑफ कम्पनी सेक्नेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभाओं पर सचिवालयी मानकों (''एसएस-2'') प्रत्येक समय-समय पर यथा-संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के अनुसार कम्पनी एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसाय के लिये सदस्यों को एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान- वोटिंग की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है तथा इस उद्देश्य से इलेक्टॉनिक माध्यमों से मतदान की सविधा प्रदान करने के लिये कम्पनी ने एनएसडीएल को नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग तथा वीसी/ ओएवीएम द्वारा शामिल होने के लिये विस्तृत निर्देश 40वीं एजीएम की सूचना में दी गई है। सदस्यों से आग्रह है कि ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने से पूर्व निर्देशों का सावधानीपूर्वक

अध्ययन कर लें। सदस्यों से आग्रह है कि निम्नलिखित का ध्यान रखें:

क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ख) सदस्यों के मतदान का अधिकार शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 (कट-ऑफ तिथि) को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा। सभा के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होंगे तथा सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों जिन्होंने पूर्व में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, सभा में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों/ लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वे ही एजीएम से पूर्व/दौरान रिमोट ई-वोटिंग के लिये अधिकृत होंगे।

ग) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिये लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई टोल-फ्री नं. 1800-1020-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं वे केवल जानकारी के लिये एजीएम सुचना

घ) जिन सदस्यों ने एबीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले ही अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन प्रस्तावों पर पुनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे जिस पर उन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान पूर्व में ही किये हों। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार

मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश 40वी एजीएम

ङ) जिन सदस्यों को एजीएम से पूर्व या उसके दौरान सहयोग की जरूरत हो, वे एनएसडीएल से टेली.

की सचना में दिये गये हैं।

तिथि : 1 सितम्बर, 2021

नं.: 1800-1020-990 तथा 1800-224-430 पर सम्पर्क करें या सुश्री सरिता मोते, सहायक प्रबन्धक, एनएसडीएल से निर्दिष्ट ई-मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क करें। श्री रूपेश अग्रवाल, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एसीएस 16302) तथा उनकी विफलता में श्री

शशिकान्त तिवारी (सदस्यता सं. एसीएस 28994), पार्टनर(रों) मै. चन्द्रशेकरण एसोसिएटस, कम्पनी सेक्रेट्रीज को स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से एजीएम से पूर्व तथा दौरान रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। एजीएम से पूर्व तथा दौरान रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा एजीएम की समाप्ति से अधिकतम

48 घंटे में की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कम्पनी की वेबसाईट www.blblimited.com तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात् बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर प्रदर्शित किया

बीएलबी लिमिटेड के लिये हस्ता./ स्थानः नई दिल्ली निशान्त गरुड

कम्पनी सचिव

Canara Bank पंजी. कार्यालयः बी-3/8, ऊपरी भूतल, रजौरी गार्डन,

दिल्ली-110015

**LLPIN: AAM-7560,** 

ई-मेलः colawddn@ykalra.com

प्रपत्र सं. यूआरसी-2

शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिये

िकम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथा कम्पनी (पंजीकरण के लिये

नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा

(2) के अनुपालन में दिल्ली में कम्पनी रजिस्ट्रार के पास इस आशय का एक आवेदन

प्रस्तुत किया गया है कि मै. ईन्नोरेन हेल्थकेयर एलएलपी एक एलएलपी को शेयर्स द्वारा

एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग

. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: जनरल प्रीवेन्टिव मेडीसीन, एम्यूट एवं क्रॉनिक रेनल

के मामलों की व्यापक देखभाल, विभिन्न विशिष्टताओं में टेलीमेडिसीन, सहित हेल्थकेयर

के नये उपायों, एम्यूट एवं कॉनिक चिकित्सा समस्याओं के निदान से संबंधित सभी व्यवसा

करना। सभी उपलब्ध साधनों द्वारा चिकित्सा योजनाओं की सभी शाखाओं में जनता को

चिकित्सा राहत उपलब्ध कराना तथा रोग के डायग्नोस्टिक समझ तथा रोकथाम एवं उपचा

सभी प्रकार की जेनरिक तथा पेशेन्ट/ नान-पेशेन्ट मेडिसीन्स, ड्रग्स, मिक्चर्स, फार्म्युलेशन,

टैब्लेट्स, पिल्स, पावर्स, फार्मास्युटिकल्स तथा चिकित्सा उपादों, सुईयों, सिरिजेज, इन्जेक्टेवल

वैक्सीन, सेरा, इम्यूनोजेन्स, फाइलाकोजेन्स, केमिकल्स तथा सर्जिकल ड्रेसिंग्स, किट्स तथ

उपकरणों का क्रय, बिक्री, आपूर्ति, भंडारण, प्रबंधन करना तथा डायग्नोसिस सेन्टरों का

अधिग्रहण, स्थापना/ प्रचालन एवं प्रबंधन करना, हॉस्पीटल्स, नर्सिंग होम्स तथा हेल्थकेयर

सेन्टर्स स्थापित करना तथा डायग्नोसिस, रोगों की समझ, चिकित्सा, उपचार, रोकथाम की नई

पद्धतियों की खोज, सुधार एवं विकास करना तथा अस्पतालों एवं/ अथवा सरकार या किसी

अन्य व्यक्ति जिसमें स्थानीय प्राधिकरण, निगम, संस्थाएं, ट्रस्ट, कम्पनी, फर्म तथा अन्य व्यक्ति

शामिल हैं. के लिए अन्य भवनों का डिजायन तथा निर्माण करना, सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर

की बिक्री, क्रय, आपूर्ति, प्रबंध तथा अन्य रूप से व्यवसाय तथा विकास करना तथा चिकित्स

. प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति बी-3/8,

. एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति

हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के

प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण

केन्द्र (सीआरसी), भारत कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8

सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गाँव (हरियाणा) पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रान

ऊपरी भूतल, रजौरी गार्डन, दिल्ली-110015 में कार्यालय में देखी जा सकती है।

के लिए नई पद्धतियों की खोज, सुधार अथवा विकास करना।

प्राधिकृत

Shakti Nagar Branch, 30/11, Nangia Park, Shakti Nagar, Delhi-110007 Phone No-23845361, 9560081170 Email: cb1170@canarabank.com

कब्जा सूचना (धारा 13(4)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत (इसके बाद 'कहा अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के अधीन **केनरा बैंक**, का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (इसके बाद ''उक्त नियम'' के रूप में संदर्भित कहा गया) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं, उपरोक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि चुकाने वे लिए और इसलिए यह नोटिस कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित दिनांक** के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता तथा जनसाधारण को एतदहारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **केनरा बैंक, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ में** आकस्मिक खर्चे, लागत, शुल्क इत्यादि सहित के अधीन होगा।

क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार/ गारंटर/बंधककर्ता)	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रू. में)	माँग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख
1		साम्यिक बंधक लीज़होल्ड औद्योगिक सम्पत्ति नं. 64,	दिनांक 31.03.2021 तक और दिनांक 01. 04.2021 से भविष्य का	13-04-2021
	(उधारकर्ता), श्री राजीव बंसल (प्रोपराईटर)	ब्लॉक-ई, सैक्टर-1, डीएसआईआई डीसी कॉम्लैक्स, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110039 में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग मी., चौहदी: उत्तर में - रोड, दक्षिण में - अन्य का प्लॉट, पूरव में - प्लॉट नं. 63, पश्चिम में - प्लॉट नं. 65		31-08-2021
2	मैसर्स शक्ति इंडस्ट्रीज		दिनांक 31.03.2021 तक और दिनांक 01. 04.2021 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार	13-04-2021
	(उधारकर्ता), श्री राजीव बंसल (पार्टनर और गारंटर) और श्रीमती प्रेमवती (पार्टनर और गारंटर)	फैक्ट्री भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 115, सैक्टर-03, ब्लॉक / पॉकेट-1, डीएसआई डीसी कॉम्लैक्स, उद्योग विहार, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110039 में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग मी., चौहदी: उत्तर में - अन्य का प्लॉट नं. 114, दक्षिण में - रोड, पूरव में - प्लॉट नं. 116, पश्चिम में - रोड		31-08-2021
3	मैसर्स वोल्टेक इंडिया प्रा. लि. उधारकर्ता), श्री राजीव बंसल (निदेशक) और श्री निमेश बंसल (निदेशक और गारंटर)	दिल्ली—110007 में स्थित, क्षेत्रफल 56 वर्ग गज, चौहदी : उत्तर में – गली, दक्षिण में – रोड़, पूरब में – सम्पत्ति	दिनांक 31.03.2021	13-04-2021
200				31-08-2021

टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड संपर्क पता: 7वीं मंजिल विडियोकोंन टॉवर, झण्डेवालन एक्सटेंशन, TATA नई दिल्ली -110055. भारत

मांग सचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अघिनियम") की घारा 13(2) के तहत

। विजय शर्मा प्लाट नं. 603, पॉकेट सी-8, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085. 2.इंद् शर्मा

प्लाट नं. 603, पॉकेट सी-8, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085. अन्य पता : एसएफ-६, पार्केन्द, विकास मार्ग, प्रीत विहार, दिल्ली. 3. मेसर्स निम्बल टर्स प्रा. लि. इनके डायरेक्टर के द्वारा

प्लाट नं. 603, पॉकेट सी-8, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085.

प्रेय श्रीमान / मैडम.

ऋण खाता सं. 20263921 के तहत 25.08.2021 तक टाटा कैंपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड (इसके पश्चात ''टीसीएफएसएल' सन्दर्भित) द्वारा आपको 31.03.2018 को स्वीकृत होम इक्विटी (लैप) ऋण के तहत टीसीएफएसएल का ब्याज सहित रु. 71,14,571.05/-(रुपये इकहत्तर लाख चौदह हजार पांच सौ इकहत्तर एवं पैसा पांच मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भूगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकायों में आपके पुनर्भुगतान में चूक के कारण आरबीआई के दिशा—निर्देश के अनुसार 09.03.2021 को एनपीए खाता वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हिंत प्रवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी की शक्तियों के उपभोग में 25.08.2021 को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कथित ऋण राशि ₹. 71,14,571.05 / – का भावी ब्याज एवं लागतों सिहत सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सूचना जारी की थी, जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल निम्नलिखित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा सुजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपयोग करेगा।

संपत्ति की अनुसूची

एमआईजी फ्लेट नं. 603, दूसरी मंजिल पर, पॉकेट में डीडीए फ्लेट, सी–8, सेक्टर–8 में, रोहिणी, दिल्ली - 110085, टाईटल डीड में अधिक विवरण. चर्तुसीमा : पूर्व : फ्लेट नं. 602, पश्चिम : अन्य, उत्तर : खुला, दक्षिण : सिदिया

माँग सूचना दिनांक 25.08.2021 की प्रभावी सर्विस सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम एतद्वारा वर्तमान प्रकाशन के माध्यम से कथित सूचना की सर्विस दे रहे हैं। एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व का भूगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी अधिकार का उपयोग करेगी। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की घारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों का अन्तरण विक्रय पटटे या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे। स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 02,09,2021

प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

DEBTS RECOVERY TRIBBUNAL DELHI(DRT 3) 4TH FLOOR JEEVAI TARA BUILDING PARLIAMENT STREET, NEW DELHI: 110001

Case No.: OA/913/2019

UNION BANK OF INDIA PARVEEN KUMAR AND ORS

(1)M/S AMPRAPALI LEISURE VALLEY PVT LTD, 307,III FLOOR, NIPU TOWER, PLOT NO. 15, COMMUNITY CENTRE, KARKARDOOMA,

Registrar on 24/06/2021 NHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on t

said Application under section 19(4) of the Act.(0A) filed against for recov

said Application under section 19(4) of the Act. (OA) filed against for recover of debts of Rs. 2431785.00/- (application along with copies of documents etc annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendents are directed as underr- (i)To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties an assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3/ of the original application; pounding hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, leas or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the asset over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to accoun for the sales proceeds realise by sale of secured assests or other assets

or the sales proceeds realise by sale of secured assets or other assets ar

operties in the ordinary course of business and deposit such sale proc

To the application and to appear before Registar on 15/09/2021 at 10:30A.M failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the date: 04/08/202 Signature of the Officer Authorised to issue summons

फॉर्म संव. आईएनसी-26

केन्द्रीय सरकार के समक्ष

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की

उप घारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम,

2014 के नियम 30 के उप नियम (5)

खंड (ए) के मामलें में

सीफर एथिकल रिक्क्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं0. 111 अग्रवाल

सिटी स्ववायर प्लॉट नं0. 10 मंगलम पैलेस

सेक्टर-3, रोहिणी नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम

दिल्ली, दिल्ली-110085, भारत में है के

एतदद्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता

है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीव** 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में

स्थानान्तरित करने को सक्षम बनाने हेत् कंपनी

अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अन्तर्गत

22.01.2021 को आयोजित असाधारण सामान्य

बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संबंध में, केंद्रीय

सरकार (क्षेत्रीय निर्देशक) के समक्ष कंपनी की

संस्था बहि नियमावली के खंड 🛭 (रिथति खंड)

में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने

की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म

.....वाचिकाकर्ता

मामलें में

प्रस्तावित है।

the account maintained with the bank or financial institution holding

Also At CORPORATE OFFICE AT C 56/40, SEC 62, NOIDA, UP

ule (2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Proce

SUMMONS
WHEREAS, OA/913/2019 was listed before Hon'ble

NIMBUS

के पास जमा करें।

आज. दिनांक 1 सिम्बतर, 2021 को।

से जुड़ी परामर्श उपलब्ध कराना।

## निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

दिनांक : 31-08-2021. स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालयः 1001-1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 (CIN: L74899DL1993PLC055470)

ईमेल : nimbusindialtd@gmail.com वेबसाईट : www.nimbusprojectsltd.com

फोन : 011-42878900, फैक्स : 011-22424291 निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 28वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

हस्ता./

DIN: 0817017

सदस्यों के ध्यानार्थ अनुरोध है कि निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की 28वीं वार्षिक साधारण सभा गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को प्रातः 11:30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यमों ''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी। जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के लागू होने वाले प्रावधानों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी परिपत्र नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, साधारण परिपत्र नं. 17/2020, तिथि 13 अप्रैल, 2020, साधारण परिपत्र नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 तथा साधारण परिपत्र नं 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021, साधारण परिपत्र नं. 10/2021 तिथि 23 जून, 2021 और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र तिथि 12 मई, 2020 और परिपत्र तिथि 15 जनवरी, 2021("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में 28वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में 28वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, जिसमें ई—वोटिंग के लिए प्रक्रिया व निर्देशों का उल्लेख होगा और वित्तीय वर्ष 2020—21 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को केवल इलैक्ट्रानिक

माध्यमों से भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते आरटीए/कंपनी/डिपोजिटरी/के पास पंजीकृत हैं। 28वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी की वेबसाईट www.nimbusprojects/td.com और बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जायेगी और यह नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिये डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स (डीपी) के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास तथा भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिये कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स ("आरटीए"), अलंकित असाईंमेंट लिमिटेड, अलंकित हाऊस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली—110055 के पास ईमेल भेजकर/लिखित अनुरोध करके उसे पंजीकृत करा लें। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने अन्य विवरण जैसे पैन, बैंक विवरण आदि डीपी या आरटीए के माध्यम से अपडेट करा लें। कम्पनी दोनों इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, रिमोट ई—वोटिंग तथा एजीएम में ई—वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने सदस्यों को मताधिकार के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध करायेगी। ई—वोटिंग की प्रक्रिया के लिये निर्देश उस प्रक्रिया सहित, जिसमें भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य अथवा जिन्होंने अपने ई– मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, 28वीं एजीएम की सूचना के भाग के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि 28वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना में उल्लिखित सभी निर्देशों खासकर वार्षिक साधारण सभा में शामिल होने के निर्देशों व वार्षिक साधारण सभा के दौरान रिमोट द्वारा ई–वोटिंग और

यह विज्ञापन एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ के लिए प्रकाशित किया गया है। कृते निम्बस प्रोजेक्टस लिमिटेड हस्ता/-

ई—वोटिंग करने के तरीके को सावधानीपूर्वक पढ़ें ।

साहिल अग्रवाल तिथि : 1 सितम्बर, 2021 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थान : नई दिल्ली सदस्यता सं. ए३६८१७



### आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:15वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 (भारत) दुरभाष नं.: 011-66155129 | फैक्स नंबर: 0120-4588513 ईमेल: Investor@racigeartech.com | वेबसाइट: www.racigeartech.com

सीआईएन: L34300DL1983PLC016136 38वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

1. एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 38वीं वार्षिक साधारण सभा एजीएम आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के निष्पादन के लिये क्रमशः एमसीए सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तथा 02/2021 तिथि क्रमशः 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 के अनुसार विडियो कॉन्फ्रैंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 को 03.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी। जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

2. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में भेज दी गई है। एजीएम की सूचना का प्रेषण बुधवार, 1 सितम्बर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। सूचना तथा वर्ष का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.raclgeartech.com पर उपलब्ध है।

यदि आपने कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो एफ.वाई. 2020-21 का वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग हेतु लागिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिये नीचे दिये गये निर्देशों

**भौतिक धारिता**: ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रान्ट तथा बैक), पैन कार्ड तथा आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति को उपलब्ध कराते हुए info@masserv.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स (''आरटीए''), एमएएस सर्विसेस लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें।

कपया अपने फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ हमारे आरटीए, एमएएस सर्विसेस लिमिटेड, टी-34, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 के पास मूल निरस्त चैक के साथ अपना बैंक का विवरण भेजें (यदि वह पहले से पंजीकृत नहीं हो।)

**डीमैट धारिता**: कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराऐं। कृपया अपने, डीपी के पास अपने बैंक के विवरणों को भी अपडेट कराऐं

रिमोट ई-वोटिंग

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 44 के साथ पिटत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में यह कम्पनी कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 को भौतिक अथवा डीमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले अपने सदस्यों को उसकी पोर्टल www.evotingindia.com के माध्यम से एनएसडीएल की रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग का उपयोग कर मतदान करने की प्रक्रिया का विवरण एजीएम की सूचना में वर्णित है।

सदस्यगण कृपया ध्यान रखें किः क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. शुरू होगी तथा गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे

ख) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 17 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करते हैं तो वे evoting@nsdl.co.in अथवा info@masserv.com पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ग) गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप.) के बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा उक्त समय के बाद सदस्यों को मतदान की अनुमित नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के

उपरांत उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। घ) एजीएम में ई–वोटिंग से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान पूर्व में किये हैं, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु फिर से मतदान के लिए अधिकृत नहीं होंगे। सदस्यों के मताधिकार की

ङ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

गणना कट-ऑफ तिथि को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में की जाएगी।

च) सुश्री रिधिमा अग्रवाल, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. A35391 एवं CP No. 16584) को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षक नियक्त किया गया है। छ) ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/ समस्या सुश्री शगुण बाजपई, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, आरएसीएल गिअरटेक

लिमिटेड, बी-9, सेक्टर-3, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, फोन 0120-4588500, फैक्सः 0120-4588513, ई-मेलः investor@raclgeartech.com को संबंधित की जा सकती है। 5. **पुस्तक बंद होना**: भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उ**द्**घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के

साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 से शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड के लिए शगुन बाजपेई स्थानः नोएडा तिथिः 2 सितम्बर, 2021 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी 🎉 बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda frent as dis

मुरादनगर शाखा, वार्ड नं. 14, मेन रोड, मुरादनगर, जिला–गाजियाबाद, यू.पी फोन नं01232-260039, Fax : 01232- 260040 ई—मेल: muradn@bankofbaroda.com

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

प्राधिकत अधिकारी, केनरा बैंक

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ौदा, का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भूगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ़ बड़ीदा, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और अनापक्षित ब्याज लागत और चुकीती की तिथि तक सर्विदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)	
1	श्री मोहित गोयल प्रोप. मैसर्स	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति	03-04-2021	ह. 27,69,326.81 (ह. सत्ताईस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ छब्बीस और पैसे इक्यासी मात्र) और चुकौती की तिथि तक भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि	
- ×	मोहित कुमार अवध कुमार और गारंटर स्वं. श्री संतोष कुमारी और स्वं. श्री लाला बाल स्वरूप	क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, खसरा नं. 68 और 69, गाँव उख्लासीं, मुरादनगर, परगना, जलालाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति स्वं. श्रीमती संतोष कुमारी और स्वं. श्री लाला बाल स्वरूप पुत्र भजन लाल के नाम पर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर और जिला गाजियाबाद (यू.पी.) में पंजीकृत, चौहदी: उत्तर पश्चिम में – रोड, दक्षिण पूरव में – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर पूरव में – श्री दिपेश चाँघरी की सम्पत्ति, दक्षिण पश्चिम में – श्री अशोक कुमार की सम्पत्ति	31-08-2021		
2	श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी मकान	03-04-2021	रु. 10,68,895.54 (रु. दस लाख	
	सुभाष चंद शर्मा और श्रीमती आशा शर्मा पत्नी मनोज शर्मा और गारंटर श्री अशोक कुमार पुत्र बिष्णु सिंह	मोहल्ला महाजन, ओल्ड रामलीला मैदान, करूबा-	31-08-2021	अडसठ हजार आठ सौ पिच्चान्वे और पैसे चौवन मात्र) और चुकौती की तिथि तक भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि	
3	स्वं. श्रीमती शारदा अग्रवाल		03-04-2021	रु. 13,03,758/- (रु. तेरह लाख तीन	
	(मृतक) प्रोप. मैसर्स श्री दुर्गा टेक्सटाइल्स	कॉलोन, विजय मेगा मार्ट के विपरीत, मुरादनगर, गाजियाबाद, यू.पी में रखी है	31-08-2021	हजार सात सौ अडावन मात्र) और चुकौती की तिथि तक भविष्य क ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि	
4	the transfer and the transfer		03-04-2021	रु. 19,72,515.60 (रु. उन्नीस लाख बहत्तर हजार पाँच सौ पदंह और पैसे साठ मात्र) और चुकौती की तिथि तक भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि	
	सोनू टेक्सटाइल्स एंड गारंटर्स स्वं. श्रीमती फुलमिजरा और श्री रहीसू पुत्र स्वं. निजामुद्दीन	क्षेत्रफल 240 वर्ग गज, खसरा नं. 1615 मिन, गाँव—सारना, मुरादनगर, परगना जलालाबाद, तहसील गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति स्वं. श्रीमती फुलमिर्जा के नाम पर है। चौहदी: पूरव में – श्री बिलाल अहमद की सम्पत्ति, पश्चिम में – गली, उत्तर में – श्री अनीश की सम्पत्ति, दक्षिण में – श्री			

दिनांक : 31.08.2021, स्थान : मुरादनगर

RELIGARE

तिथि : 2 सितम्बर, 2021

स्थान : नई दिल्ली

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1984PLC146935 पंजीकृत कार्यालय: पहली मंजिल, पी-14, 45/90,

पी-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001

फोन: +91-11-4002 1400 | फैक्स नंबर: +91-11-4002 1401

वेबसाइट: www.religare.com | ईमेल: Investorsservices@religare.com वीडियो कांफ्रेंस/अन्य दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 37वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण हेतु सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों के लेनदेन के लिए रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (''कम्पनी'') की 37वीं वार्षिक आम बैठक (इसके पश्चात ''एजीएम'' कहा जायेगा) वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य श्रव्य साधनों (''वीसी/ओएवीएम'') से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 4.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी और एजीएम

आयोजित करने हेतु उचित समय पर वितरित की जायेगी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों के बनाये रखने के लिए कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए'' द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' संदर्भित) एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (इसके पश्चात सामूहिक रूप से ''परिपत्र संदर्भित'') के संदर्भ में कम्पनियों को अब 31 दिसम्बर, 2021 तक कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य श्रव्य साधनों (''वीसी''/''ओएवीएम'') के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। अतः परिपत्रों, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (''अधिनियम''), तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के अनुसार कम्पनी की 37वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 4.00 बजे अप. सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जायेगी। समाप्त वित्त वर्ष 31 मार्च, 2021 के वित्तीय विवरणों तथा एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यो के पास भेजी जायेगी जिनके ई–मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट या उपर्युक्त संदर्भित परिपत्रों के अनुसार सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना की कोई भौतिक प्रति किसी सदस्य के पास नहीं भेजी जायेगी। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.religare.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात क्रमशः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

(''आरटीए'') की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की परिगणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की रीति : कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग

सुविधा (''रिमोट ई-वोटिंग'') उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (''ई-वोटिंग'') के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम के दौरान मतदान करने की रीति एजीएम की सुचना में उपलब्ध कराई जायेगी। ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराने की रीति

भौतिक तथा डीमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते सम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट या सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx का प्रयोग करते हुए इसके पश्चात पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देशों का पालन करके अस्थायी रूप से अपना ई-मेल आडी आरटीए के साथ पंजीकृत करा सकते हैं अथवा वैकल्पिक रूप से ई-मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर प्रति, तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति सहित हस्ताक्षरित निवेदन पत्र की स्कैन्ड प्रति einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल करें तािक वे ई-मेल द्वारा वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सुचना प्राप्त कर सकें तथा/अथवा रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल तथा ई-वोटिंग में भाग ले

ई-मेल पतों के स्थायी पंजीकरण/अपडेशन के लिए सदस्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयरधारिता की स्थित में सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार के पास तथा भौतिक प्रारूप में शेयर धारिता की स्थिति में कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास निवेदन भेज सकते हैं।

एजीएम के उददेश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पस्तिका बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 से बधवार, 29 सितम्बर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बंद रहेगी। शेयरधारकों से इस संबंध में उनकी ओर से अनुपालनीय प्रक्रिया के अधिक विवरण हेतु एजीएम की सूचना देखने का निवेदन किया जाता है।

ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ/शिकायत के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री एस.वी. राजू-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, दूरभाष : 1800 309 4001 (टोल फ्री) या ई-मेल : einward.ris@karw.com. निदेशक मंडल के आदेशानसार

कृते रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड

रीना जयारा

कम्पनी सचिव

दाशिल करके एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर विवरित कर सकता है या इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के अंदर क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2 विंग, 2 पलोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 को अपने हित की प्रकृति और विरोध के कारण बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा अपनी आपत्तियाँ भेजें अथवा पंजीकत डाक द्वारा प्रेषित करें और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के ऊपर उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भेजें।

कृते सीफर एथिकल रिक्ट्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

(विजय) स्थानः दिल्ली दिनांकः 02.09.2021 DIN: 08572668

www.readwhere.com